

परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक- 5

अणुशक्तिनगर, मुंबई

आवधिक परीक्षा-1 , सत्र – २०२३ -२०२४

कक्षा – 7 (सातवीं)

विषय –हिंदी (द्वितीय भाषा)

समय:- 90 मिनट

पूर्णांक -: 40

खंड – क

प्रश्न 1. निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

(1X6=6)

उन्नीसवीं शताब्दी में यह राष्ट्रीय जागरण संपूर्ण भारत में किसी-न-किसी रूप में अभिव्यक्त हो रहा था, जिसमें भारतीयता के साथ आधुनिकता का संगम था। स्वामी विवेकानंद ने तो अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों से भारत लौटकर पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मेलन से भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न देखा था। उन्होंने माना कि भारत और पश्चिम की मूल गति एवं उद्देश्य भिन्न हैं, परंतु भारत को जागना होगा, कुसंस्कारों एवं जाति-विद्वेष को त्यागना होगा, शिक्षित होकर देश की अशिक्षित, गरीब जनता को ही 'दरिद्रनारायण' मानकर उनकी सेवा करनी होगी, उनका उत्थान करना होगा। विवेकानंद का मत था कि भारत में जो जितना दरिद्र है, वह उतना ही साधु है। यहाँ गरीबी अपराध एवं पाप नहीं है तथा दरिद्रों की अपेक्षा धनियों को अधिक प्रकाश की ज़रूरत है। वे चाहते थे कि हम अछूत अज्ञानी, दरिद्र-सभी को भाई मानें और गर्व से कहें- हम सब भाई भारतवासी हैं। मनुष्य को मानव बनाना, आदमी को इंसान बनाना आवश्यक है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें संस्कारी मानव, हमदर्द इंसान बना सके।

(क) किस सदी में संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय जागरण अभिव्यक्त हो रहा था?

(i) अठारहवीं सदी में (ii) इक्कीसवीं सदी में

(iii) बीसवीं सदी में (iv) उन्नीसवीं सदी में

(ख) विवेकानंद के अनुसार भारतीयों को कैसी शिक्षा की ज़रूरत है?

(i) अंग्रेजी पढ़ाने वाली (ii) भारतीय भाषाओं को बढ़ावा नहीं देने वाली

(iii) हमें संस्कारी मानव, हमदर्द इंसान बना सके (iv) कोई नहीं

(ग) विवेकानंद के अनुसार किसे अधिक प्रकाश की ज़रूरत है?

(i) पानी (ii) सामंतों

(iii) धनिकों (iv) कोई नहीं

(घ) 'पश्चिम' का विशेषण बताइए ।

(i) पश्चिमी (ii) पूर्व

(iii) पश्च (iv) कोई नहीं

(ड) 'अंधकार' शब्द का विलोम शब्द क्या है?

(i) प्रकाश (ii) देश
(iii) गरीब (iv) विदेश

(च) उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक सुझाइए -

(i) स्वामी विवेकानंद का भारत (ii) समय और मनुष्य
(iii) विद्यार्थी और समय (iv) विकास की सोच

खंड - ख

II. बहुविकल्पतात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

(1x10=10)

1. पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं?

(क) नल का जल (ख) टंकी का जल
(ग) नदी-झरनों का जल (घ) पिंजरे में रखी कटोरी का जल

2. बंधन किसका है?

(क) स्वर्ण का (ख) श्रृंखला का (ग) स्वर्ण श्रृंखला का (घ) मनुष्य का

3. पिंजरे में रहकर पक्षी क्या नहीं कर पाएंगे?

(क) गा नहीं पाएँगे (ख) उड़ नहीं पाएँगे
(ग) कुछ खा नहीं पाएँगे (घ) उपर्युक्त सभी

4. सोने का पिंजरा भी पक्षियों को क्यों नहीं पसंद आता है?

(क) वे तो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं (ख) क्योंकि उनकी आज़ादी छिन जाती है
(ग) क्योंकि वे कैदी के रूप में नहीं रहते (घ) उपर्युक्त सभी

5. 'कठपुतली' कविता के रचयिता हैं ?

(क) मैथलीशरण गुप्त (ख) भवानी प्रसाद मिश्र
(ग) सुमित्रानंदन पंत (घ) सुभद्रा कुमारी चौहान

6. कठपुतली को किस बात का दुख था?

(क) हरदम हँसने का (ख) दूसरों के इशारे पर नाचने का
(ग) हरदम खेलने का (घ) हरदम धागा खींचने का

7. कठपुतली के मन में कौन-सी इच्छा जागी?

(क) मस्ती करने की (ख) खेलने की (ग) आज़ाद होने की (घ) नाचने की

8. किसके गाने से हलचल मच जाती थी?

(क) बच्चों के (ख) आसपास के रहने वालों के (ग) भिखारी के (घ) खिलौनेवाले के

9. बच्चे किसे घेर लेते थे-

(क) पड़ोसियों को (ख) दोस्तों को (ग) खिलौनेवाले को (घ) युवती को

10. समाचार पत्र कौन पढ़ रहे थे?

(क) रोहिणी (ख) विजय बाबू (ग) मुरलीवाला (घ) मिठाईवाला

खंड - ग

प्रश्न III. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो ।

(दस में से कोई नौ प्रश्नों के उत्तर लिखो)

2 X 9 = 18

प्रश्न क . पांडु की कितनी रानियाँ थी ? उनके नाम लिखो ।

प्रश्न ख . पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं ? अपने विचार लिखिए ।

प्रश्न ग . नीचे लिखी पंक्ति का आशय/भाव स्पष्ट कीजिए ।

या तो क्षितिज मिलन बन जाता / या तनती साँसों की डोरी ।

प्रश्न घ . पक्षी उन्मुक्त रहकर कौन - कौन सी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं ?

प्रश्न च . कठपुतली को गुस्सा क्यों आया ?

प्रश्न छ . कठपुतली को पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है , लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती ?

प्रश्न ज . मिठाईवाला अलग - अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था ?

प्रश्न झ . पांडवों को कितने सालों का वनवास मिला था ?

प्रश्न ट . महाभारत की रचना किसने की?

प्रश्न ठ . कौरवों और पांडवों के राज्यों के नाम लिखो जहाँ वो शांतिपूर्ण शासन करके रहे ?

खंड - घ

प्रश्न IV. नीचे दिए गए व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखो -

2 X 3 = 6

प्रश्न क . 'भूखे - प्यासे' में द्वंद्व समास है | इस चिन्ह से 'और' का संकेत मिलता है , जैसे-
'भूखे - प्यासे' = भूखे और प्यासे | (2)

इस प्रकार के चार उदाहरण लिखो |

प्रश्न ख . नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य (संज्ञा) का मिलान कीजिए -

(2)

विशेषण	विशेष्य
मूसलाधार	जंगल
चंचल	वर्षा
समतल	नदियाँ
घना	आँगन

प्रश्न ग . नदी को उलटा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब | आप भी ऐसे चार शब्द लिखिए जिसे लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए | (2)

समाप्त